



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन 1934 (श10)
(सं0 पटना 221) पटना, शुक्रवार, 8 मार्च 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

8 मार्च 2013

एस0ओ0 159, दिनांक 8 मार्च 2013—जिला पदाधिकारी, कैमर, भभुआ के पत्रांक-629/विधि, दिनांक 24.03.2012 के अनुसरण में कैमर, भभुआ जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कैमर, भभुआ जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधितवादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री राम नारायण राम, पंजीयन संख्या-1338/1994 को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।
4. इन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
5. इनका यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह में लंबित तथा निष्पादितवादों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में इनके कार्यों की लंबित केशों की समीक्षा जिला पदाधिकारी तथा निर्देशक अभियोजन द्वारा की जायेगी तथा उन्हें सरकार को प्रतिवदेन समर्पित करना है।

(सं०सं०-सी०/ए०एस०-3-05/2008-1782/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 221-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>